

## दशमलव को प्रतिशत में बदलें

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$83\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$98\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$88\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$3\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$57\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$54\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$66\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$48\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$46\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$58\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$55\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$44\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$50\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$66\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$57\% = \underline{\hspace{2cm}}$


$81\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$51\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$21\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$45\% = \underline{\hspace{2cm}}$

$48\% = \underline{\hspace{2cm}}$



दशमलव को प्रतिशत में बदलें

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$83\% = 0.83$$

$$98\% = 0.98$$

$$88\% = 0.88$$

$$3\% = 0.03$$

$$57\% = 0.57$$

$$54\% = 0.54$$

$$66\% = 0.66$$

$$48\% = 0.48$$

$$46\% = 0.46$$

$$58\% = 0.58$$

$$55\% = 0.55$$

$$44\% = 0.44$$

$$50\% = 0.5$$

$$66\% = 0.66$$

$$57\% = 0.57$$

$$81\% = 0.81$$

$$51\% = 0.51$$

$$21\% = 0.21$$

$$45\% = 0.45$$

$$48\% = 0.48$$